



## रामाज्ञा स्कूल, नोएडा

VI / सिल्वर ज़ोन / 2018-19

हिंदी ओलंपियाड अभ्यास पत्रक - 4

संकल्पना

दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनो।

- वर्ण के तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्णों को व्याकरण में क्या कहते हैं ?  
(क) सघोष (ख) अघोष  
(ग) ऊष्म (घ) अंतस्थ
- व्यंजन के कितने भेद हैं ?  
(क) चार (ख) दो  
(ग) तीन (घ) एक
- हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है ?  
(क) बारह (ख) नौ  
(ग) तेरह (घ) ग्यारह
- स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने हैं ?  
(क) पच्चीस (ख) तैंतीस  
(ग) छब्बीस (घ) बीस
- अं, अः क्या कहलाते हैं ?  
(क) व्यंजन (ख) आगत व्यंजन  
(ग) अयोगवाह (घ) स्वर

**अनुप्रयोग**

- 'सज्जन' शब्द में उपसर्ग है-  
(क) सज् (ख) सत्  
(ग) सत् (घ) सद
- इनमें से कौन-सा शब्द 'नित्य एकवचन' में प्रयुक्त होता है ?  
(क) दर्शन (ख) पानी  
(ग) प्राण (घ) आँसू
- 'ऐतिहासिक' शब्द में प्रत्यय है-  
(क) इक (ख) ईक

- (ग) हासिक (घ) सिक
9. ' भोजनालय' को संधि-विच्छेद होगा -  
(क) भोज +नालय (ख) भो+जनालय  
(ग) भोजन +आलय (घ) भोजन +अलय
10. शुद्ध शब्द का चयन कीजिए -  
(क) परिवारिक (ख) पारिवारिक  
(ग) पारीवारिक (घ) परीवारिक

### मूल्यपरक

- 11 कौन-सी लिपि वैज्ञानिक है ?  
(क) फ़ारसी (ख) रोमन  
(ग) देवनागरी (घ) जापानी
12. निम्नलिखितयुगमों में से कौन -सा युगम भाषा का उदहारण नहीं है ?  
(क) नेपाली , अवधी (ख) संस्कृत, हिंदी  
(ग) नेपाली, तमिल (घ) भोजपुरी, मारवाड़ी
13. 'कवि ' का स्त्रीलिंग क्या होगा -  
(क) कविय (ख) कवयत्री  
(ग) कवियत्री (घ) कवयित्री
14. 'सौभाग्य' का विलोम शब्द है -  
(क) औभाग्य (ख) दुर्भाग्य  
(ग) बैराग्य (घ) भाग्य
15. भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए -  
(क) सर्प (ख) विषधर  
(ग) भुजंग (घ) भूधर

### उच्चस्तरीय

16. दोपहर के समय को कहते हैं - -  
(क) अपराहन (ख) मध्याहन  
(ग) संध्याकाल (घ) इनमें से कोई नहीं
17. 'जो कुछ न करता हो' वाक्यांश के लिए एक शब्द -  
(क) आलसी (ख) कामचोर  
(ग) अकर्मण्य (घ) कर्महीन

18. 'रोहित बाहर जाकर खेलो ।' अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है -  
(क) विधानवाचक (ख) संदेहवाचक  
(ग) आज्ञावाचक (घ) प्रश्नवाचक
19. 'आज चाँद नहीं दिखाई दिया ।' रचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए-  
(क) नामधातु क्रिया (ख) संयुक्त क्रिया  
(ग) रंजक क्रिया (घ) प्रेरणार्थक क्रिया
20. 'नल से पानी टपक रहा है ।' इस वाक्य में कारक का भेद है -  
(क) करण करक (ख) अधिकरण कारक  
(ग) कर्म कारक (घ) अपादान कारक